

दूरभाष : 8920677655
ई-मेल : cecivilmrtpvvn@gmail.com
CIN: U31200UP2003SGC027458



कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक : ११५४ / मु०अ०जा०वि०/मेरठ/अनुमोदन

दिनांक 18-11-2022

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) वितरण, मेरठ से प्राप्त एवं संस्तुत निम्नलिखित कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

क्र० सं०	जानपद खण्ड/मण्डल	टिप्पणी संख्या एवं दिनांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	लागत (रु० लाख में) (जी०एस०टी० अतिरिक्त)	वित्त पोषण
1	वि०जा०वि०म०, मेरठ	पत्रांक 1237 दिनांक 11.11.2022	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर एवं विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के (कुल 02 नग) खण्डीय कार्यालय भवनों के विशेष अनुरक्षण के कार्यों के सम्बन्ध में।	4.57	अनुरक्षण मद
2	वि०जा०वि०म०, मेरठ	पत्रांक 1238 दिनांक 11.11.2022	33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, जैनबाग, सहारनपुर पर फायरवॉल के निर्माण कार्य।	3.06	अनुरक्षण मद
कुल योग				7.63	

उपरोक्त अनुमोदन निम्न के प्रतिबन्धाधीन होगा:

- सक्षम समिति द्वारा कार्य/क्रय के आवंटन का निर्णय आमंत्रित ई-निविदा में प्राप्त न्यूनतम दरों की औचित्यता/युक्तियुक्तता के परिपेक्ष्य में सुनिश्चित किया जायेगा।
- क्रय/कार्य का वित्त पोषण उपरोक्त सारणी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित कार्य हेतु स्वीकृति अनुसार पर्याप्तता/समौचित्य सुनिश्चित किया जायेगा।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यथा प्रदत्त अनुमोदन से अनुशंसित कार्य अथवा किसी पूर्व प्रदत्त अनुमोदन की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
- कार्य/क्रय की प्रगति से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- कार्य का ऑकलन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत करने के उपरान्त ही निविदा कार्य/क्रय समिति को प्रस्तुत की जाये।
- अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधान सुनिश्चित किया जायें।

पत्रांक : ११५४ / मु०अ०जा०वि०मेरठ/अनुमोदन

दिनांक 18-11-2022

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। ई-मेल द्वारा

- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ को टिप्पणी तथा आदेश की छायाप्रति सहित एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रख-रखाव का विधिवत रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित करेंगे।

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
18/11/22

टिप्पणी तथा आदेश

दिनांक :- 11/11/22

पत्रांक :- 1237/वि0जा0वि0म0/मेरठ/A-1 SRE

विषय :- विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर एवं विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के (कुल 02 नग) खण्डीय कार्यालय भवनों के विशेष अनुरक्षण के कार्यों के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)/निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
महोदय,

संज्ञान में लाना है कि अधिशारी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के कार्यालय पत्र सं0 5257/वि0न0वि0ख0-प्रथम/स0पुर दिनांक 05.11.2022 एवं अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के पत्र सं0 7450/वि0वि0ख0प्र0/स0पुर दिनांक 02.11.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा 33/11 के0वी0 घन्टाघर परिसर स्थित उक्त कार्यालय भवनों का वर्षों से कोई अनुरक्षण कार्य न होने के कारण भवन जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है एवं जिनकी रंगाई-पुताई एवं मरम्मत के विभिन्न जानपदीय कार्य कराये जाने की आवश्यकता के बारे में अवगत कराया है (फोटोग्राफ संलग्न)। जनपद में विभिन्न शासकीय कार्यालय परिसरों के निरीक्षण हेतु नामित जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर द्वारा निरीक्षण के दौरान कार्यालय भवनों की वर्तमान स्थिति पर अत्यन्त रोप व्यक्त किया गया तथा अनुरक्षण के विभिन्न कार्य को कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त भवनों के स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया है कि पिछले 05 वर्षों से भी अधिक समय से परिसर में कार्यालय भवनों के अनुरक्षण का कोई कार्य नहीं हुआ है। उपरोक्त विषयक विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर कार्यालय भवन के स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया है कि उक्त कार्यालय भवन काफी पुराना बना हुआ है जिसकी छत से कुछ स्थानों में पानी के रिसाव के चलते पेन्ट एवं पुट्टी पूर्णतः नष्ट हो चुकी है जिस कारण से कार्यालय में कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं कार्यालय में स्थित उपकरणों तथा रिर्काड के क्षतिग्रस्त होने की सम्भवावधि बढ़ रही है। अतः भवन के जीर्णोद्धार हेतु रंगाई-पुताई, प्लास्टर एवं फर्श की मरम्मत, खिड़की एवं दरवाजों की मरम्मत, शौचालय तथा जल निस्तारण एवं छत की मरम्मत के जानपदीय कार्य कराये जाने की अति आवश्यकता है।

विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम के कार्यालय भवन के भौतिक निरीक्षण में यह पाया गया है कि इस द्विमंजिला भवन की दीवारों का प्लास्टर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो चुका है एवं वर्षा ऋतु में छत से आने वाली नमी व सीलन के कारण पेन्ट एवं पुट्टी भी नष्ट हो चुकी है। अतः भवन की रंगाई-पुताई के साथ-साथ अन्य अनुरक्षण के कार्यों जैसे खिड़कियों एवं दरवाजों की जाली एवं शीशों की मरम्मत इत्यादि कार्यों को कराये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

जनपद सहारनपुर के कुल 02 नग खण्डीय कार्यालयों के उपरोक्त अति आवश्यक विशेष अनुरक्षण-कार्यों पर निम्न विवरणानुसार रू0 4.57 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु व सेवाकर अतिरिक्त) का व्यय अनुमानित है। उक्त कार्य को ओ0एण्ड0एम0 मद में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	लागत
A	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के कार्यालय भवन के अनुरक्षण के विभिन्न जानपदीय कार्य।	रू0 1,00,937.50
1.	कार्यालय भवन की रंगाई पुताई से सम्बन्धित कार्य।	रू0 1,26,996.50
2.	कार्यालय भवन की छत की मरम्मत, प्लास्टर की मरम्मत, शौचालय की मरम्मत, जल निस्तारण तथा विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्य।	रू0 2,27,934.00
	योग	रू0 2,27,934.00
B	विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, सहारनपुर के कार्यालय भवन के अनुरक्षण के विभिन्न जानपदीय कार्य।	रू0 90,281.00
1.	कार्यालय भवन की रंगाई पुताई से सम्बन्धित कार्य।	रू0 1,38,653.70
2.	कार्यालय भवन की छत की मरम्मत, प्लास्टर, दरवाजों एवं खिड़कियों की मरम्मत, फर्श की मरम्मत, शौचालय की मरम्मत, जल निस्तारण तथा विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्य।	रू0 2,28,934.70
	योग	रू0 2,28,934.70
	कुल योग A+B =	4,56,868.70
	Say	4.57 लाख

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को कराने हेतु रू0 4.57 लाख (यथा अनुमन्य वस्तु-व सेवाकर अतिरिक्त) का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन ओ0एण्ड0एम0 मद में प्रदान करना चाहे एवं कार्य को कराने के लिये ई-निविदा भी आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करना चाहे।

संलग्नक यथोपरि

(मुनीन्द्र कुमार) 11/11/22
अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
वि0जा0वि0म0, मेरठ

(रचित कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, (जानपद)
वि0जा0वि0उ0ख0, सहारनपुर

(रविन्द्र सिंह टाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
परिचालन विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

15-11-22
नि0 (का0 एम प्रब0)
प0वि0वि0नि0लि0 मेरठ

(L. K. Gupta)
Director (Finance)
P.V.V.N.L., Meerut

पत्रांक :- 1238/वि0जा0वि0म0/मेरठ/A-1 SRE

विषय :- 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जैनवाग, सहारनपुर पर फायरवॉल के निर्माण कार्य के द्वितीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन)/(वित्त)/प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

महोदय,

संज्ञान में लाना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर ने अपने कार्यालय पत्र सं0 6251/वि0न0वि0ख0-द्वि0/स0पुर 29.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया है कि 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जैनवाग, सहारनपुर के स्विच यार्ड में परिवर्तको के मध्य फायरवॉल का निर्माण नहीं किया गया है जिस कारण एक परिवर्तको में किसी प्रकार की विद्युत समस्या आने पर अन्य परिवर्तको पर भी तकनीकी प्रभाव पड़ सकता है जिससे विभागीय उपकरणों एवं जान-माल की अत्यधिक क्षति होने तथा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सहायक अभियन्ता (जानपद), सहारनपुर एवं अवर अभियन्ता (जानपद), सहारनपुर द्वारा उपरोक्त उपकेन्द्र के स्थलीय निरीक्षण में यह पाया गया कि स्विचयार्ड में स्थित 02 नग 10 MVA एवं 02 नग 8 MVA ऊर्जा परिवर्तक स्थापित है जिनके मध्य कुल 03 नग फायरवॉल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की होने वाली अप्रिय घटना से बचा जा सकें।

उपरोक्त उपकेन्द्र पर परिवर्तको के मध्य कुल 03 नग फायरवॉल के निर्माण कार्य पर निम्न विवरणानुसार रू0 3.06 लाख का व्यय अनुमानित है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कुल लागत
1	33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जैनवाग, सहारनपुर पर कुल 03 नग फायरवॉल के निर्माण का कार्य।	3,06,023.85
	Total	3,06,023.85
	Say	3.06 lac

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य को कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसूचन मद के अन्तर्गत रू0 3.06 लाख (वस्तु एवं सेवाकर अतिरिक्त) का प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करना चाहे एवं कार्य को कराने के लिये ई-निविदा भी आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करना चाहे।

संलग्नक : यथोपरि

(मुनीन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
वि0जा0वि0म0, मेरठ

(रविंद्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, (जानपद)
वि0जा0वि0उ0ख0, सहारनपुर

(रविन्द्र सिंह ढाका)
मुख्य अभियन्ता (जानपद)
परिचर्यालय विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ

(L. K. Gupta)
Director (Finance)
P.V.V.L., Meerut

नि0 (वि0 एवं प्रब0)
प0वि0वि0नि0लि0 मेरठ

As proposed

16/11/22
प्र0 नि0
परिचर्यालय मेरठ